

दिनांक 11-12 जुलाई, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य-स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

**1. उपस्थिति:-संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अचूक रूप से भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की स्थिति की पूर्व सूचना निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का संबंधित तिथि का वेतन अवरुद्ध करने का निर्णय लिया गया।

**अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०।**

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन तथा सभी प्रकार के प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8 तारीख तक निदेशालय को निश्चित रूप से लभ्य कराने तथा समीक्षा माह के पूर्व के सभी लंबित प्रतिवेदनों को दिनांक-02.08.2018 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- सभी प्रशाखा निदेशालय एवं प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।**

3. सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरुवार को क्षेत्र में रहकर सांख्यिकी संबंधित सभी कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेश दिये गये। इसकी सूचना निदेशालय के सभी शाखाओं को भी निदेश दिया गया कि अचूक रूप से 9वीं तारीख तक समेकित विवरणी बनाकर योजना शाखा को उपलब्ध करावें।

**अनुपालन:- सभी प्रशाखा निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।**

4. समीक्षा के क्रम में सभी तकनीकी कार्यों में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण का अद्यतन स्थिति खराब पायी गयी। इस संबंध में निदेशालय के सभी प्रशाखाओं के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण से सभी प्रकार के लंबित प्रतिवेदनों को समेकित कर स्थापना शाखा को लभ्य कराया जाय, ताकि उनपर तत्संबंधी कार्रवाई की जा सके।

**अनुपालन:- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सभी प्रशाखा।**

**5. स्थापना :-**

- (i) जिस प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में कर्मियों का पदस्थापन शून्य है उस कार्यालय में कर्मियों के पदस्थापन पर विचार करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- स्थापना शाखा निदेशालय।**

- (ii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में सेवा निवृत्त कर्मियों जिनका ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. लंबित है की सूची शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।**

- (iv) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय से विहित प्रपत्र में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्य-ब्योरा प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०।**

- (v) प्रोन्नति एवं ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के समीक्षा के क्रम में वैसे पदाधिकारी/कर्मियों पर दण्ड या कार्यवाही निर्धारित की गयी है उनके सेवापुस्त में अंकित करने हेतु निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०।**

